

**Dated: February 03, 2026**

**To,  
The Manager (Listing),  
Bombay Stock Exchange Limited,  
01<sup>st</sup> Floor, P.J. Towers  
Dalal Street, Mumbai – 400 001**

**Sub: Submission of Newspaper Publication w.r.t. Un-audited Financial Results for the  
quarter & nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2025**

**Ref: Scrip Code :532072 (INTERDIGI)**

**Dear Sir,**

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of newspaper publication w.r.t Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter & nine months ended 31<sup>st</sup> December, 2025, published on 03<sup>rd</sup> February, 2026, in “Financial Express,” English Newspaper & “Jansatta”, Hindi Newspaper, All India edition.

We hope that you will find the above in order.

This is for your information and records please.

**Thanking You,  
Yours Faithfully,  
For Interworld Digital Limited  
Shivangi  
Agarwal  
Shivangi Agarwal  
Company Secretary**

Digitally signed by  
Shivangi Agarwal  
Date: 2026.02.03 15:30:08  
+05'30'

**Encl: As Above**



## INTERWORLD DIGITAL LIMITED

CIN : L72900DL1995PLC067808  
Regd. Off. : 701, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001  
Phone: 011-43571044-45, Fax: 011-43571047, Website: www.interworlddigital.in, Email: interworlddigital@gmail.com  
EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE  
QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>st</sup> DECEMBER, 2025 (Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	For the Quarter Ended 31.12.2025 (Un-audited)	For the Nine Months Ended 31.12.2025 (Un-audited)	For the Quarter Ended 31.12.2024 (Un-audited)
1	Total income from operations (net)	0.00	0.00	1.06
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	(6.43)	(18.31)	(5.20)
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(6.43)	(18.31)	(5.20)
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	(6.43)	(18.31)	(5.20)
5	Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)]	(6.43)	(18.31)	(5.20)
6	Equity Share Capital	4783.77	4783.77	4783.77
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	0.00	0.00	0.00
8	Earnings Per Share (of Re.1/- each) (for continuing and discontinued operation)	0.00	0.00	0.00
	Basic:	0.00	0.00	0.00
	Diluted:	0.00	0.00	0.00

NOTE: The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025 filed with the Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e., [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the Company's website [www.interworlddigital.in](http://www.interworlddigital.in). The above results are prepared in accordance with the Companies (Ind AS) Rules, 2015.

For and on behalf of Board of Directors of Interworld Digital Limited



Sd/-  
Peeyush Kumar Aggarwal  
Chairman  
DIN: 00090423

Place: New Delhi  
Date: 02.02.2026



## NOTICE

Notice is hereby given that under mentioned share certificates of the Company have been reported as lost or misplaced and the holders of the said share certificates have requested the Company for issue of duplicate share certificates:

Sr. No.	Name	Folio No.	FV (in Rs.)	Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
1	Suresh Vishwanath Agarwal	43323	1	502173	163820557-163824256	3700
2	Anil Kumar	428798	1	508052	175240597-175242396	1800

Any person, who has a valid and legitimate claim in any of the above share certificates, is requested to notify the same to the Registrar & Transfer Agent of the Company i.e. Alankit Assignments Ltd., Alankit Heights, 1E/13, Jhandewalan Extn., New Delhi - 110055, within 7 days from the publication of this notice. The Company will proceed to issue duplicate share certificates unless a valid and legitimate claim is received within the above prescribed timeline. No claim will be entertained by the Company with respect to original share certificate(s) subsequent to the issue of duplicate share certificate(s).

For Jindal Steel Limited  
(Formerly known as Jindal Steel & Power Limited)

Sd/-  
Damodar Mittal  
Wholetime Director  
DIN: 00171650  
Place: New Delhi  
Date: 02/02/2026

## JINDAL STEEL LIMITED

(Formerly known as Jindal Steel & Power Limited)

(CIN: L27105HR1979PLC009913)

Regd. Office: O. P. Jindal Marg, Hissar -125005 (Haryana)  
Corporate Office: Jindal Centre, 12 Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066  
Phone: +91 11 41462000 | Fax: +91 11 26161271 | Email: [contactus@jindalsteel.in](mailto:contactus@jindalsteel.in)  
Website: [www.jindalsteel.in](http://www.jindalsteel.in)

jindalsteel jindal\_steel jindalsteelimited jindalsteel jindalsteel

ATHER

## ATHER ENERGY LIMITED

(Formerly known as Ather Energy Private Limited)

Corporate Identity Number: L40100KA2013PLC093769

Registered Office: 3<sup>rd</sup> Floor, Tower D, IBC Knowledge Park, #4/1 Bannerghatta Main Road, Bangalore-560 029, Karnataka, India  
Tel: +91 80 6646 5750 E-mail: [cs@atherenergy.com](mailto:cs@atherenergy.com) Website: [www.atherenergy.com](http://www.atherenergy.com)

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR  
THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

The Board of Directors of **ATHER ENERGY LIMITED ("the Company")** at their meeting held on February 2, 2026, approved the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025 ("Results").

The complete Results along with the Limited Review Report of the Statutory Auditors, have been posted on the website of Stock Exchanges ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and Company's website at <https://media.atherenergy.com/Financial-Results-December-31-25.pdf> and can be accessed by scanning the QR Code.



For and on behalf of the Board of Directors  
**ATHER ENERGY LIMITED**  
Sd/-

Tarun Sanjay Mehta

Executive Director and Chief Executive Officer

DIN: 06392463

Place: Bangalore, Karnataka  
Date: February 2, 2026

Note: The above information is in accordance with Regulation 33 read with Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

Adaptors 767/26



**Nippon India Mutual Fund**  
Wealth sets you free

MUTUAL FUNDS  
Sahni Yael

## Nippon Life India Asset Management Limited

(CIN - L65910MH1995PLC220793)

Registered Office: 30th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg,  
Lower Parel, Mumbai - 400013. Tel No. +91 022 6808 7000  
Fax No. +91 022 6808 7097 • [mf.nipponindiaim.com](mailto:mf.nipponindiaim.com)

Record Date  
February 05, 2026\*

## NOTICE NO. 86

Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") has approved the following Distribution on the face value of Rs. 10/- per unit under Income Distribution Cum Capital Withdrawal (IDCW) option of the undernoted schemes of NIMF, with February 05, 2026 as the record date:

Name of the Scheme(s)	Amount of Distribution (₹ per unit)*	NAV as on January 30, 2026 (₹ per unit)
Nippon India Pharma Fund - IDCW Option	8.5000	113.5959
Nippon India Pharma Fund - Direct Plan - IDCW Option	12.0000	161.0770
Nippon India Focused Fund - IDCW Option	2.5000	34.6465
Nippon India Focused Fund - Direct Plan - IDCW Option	3.5000	47.7159

\*Income distribution will be done, net of tax deducted at source, as applicable.

#or the immediately following Business Day if that day is a non-business day

**Pursuant to payment of dividend/IDCW, the NAV of the Schemes will fall to the extent of payout, and statutory levy, if any.** The IDCW payout will be to the extent of above mentioned Distribution amount per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower.

**For units in demat form :** IDCW will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under the IDCW Plan/Option of the Schemes as on record date.

All unit holders under the IDCW Plan/Option of the above mentioned schemes, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the IDCW.

For Nippon Life India Asset Management Limited

(Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund)

Sd/-

Authorised Signatory

Mumbai

February 02, 2026

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

CHALET

## Chalet Hotels Limited

CIN: L55101MH1986PLC038538,  
Registered office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block 'G', Next to Bank of Baroda, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051. Email ID: [investorrelations@chalet-hotels.com](mailto:investorrelations@chalet-hotels.com), website: [www.chalet-hotels.com](http://www.chalet-hotels.com)

ATHIVA  
HOTELS & RESORTS

EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND  
NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2025

(Rs. in million)

Sr No	Particulars	Quarter Ended		Nine months ended		Year ended
		31 December 2025	30 September 2025	31 December 2024	31 December 2025	31 March 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income from Operations	5,892.11	7,438.21	4,644.55	22,413.70	17,541.22
2.	Net Profit for the period (before tax)	1,672.36	2,049.45	1,183.50	6,407.93	4,343.11
3.	Net Profit for the period after tax	1,240.68	1,548.19	965.23	4,820.15	186.59
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,244.91	1,547.51	963.14	4,823.03	180.30
5.	Paid up Equity Share Capital	2,187.53	2,186.85	2,184.28	2,187.53	2,184.28
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	33,132.65	31,964.59	26,994.57	33,132.65	26,994.57
7.	Securities Premium Account	20,259.73	20,240.55	20,167.89	20,259.73	20,167.89
8.	Net worth	35,314.04	34,145.53	29,173.51	35,314.04	29,173.51
9.	Outstanding Debt	23,869.23	24,417.11	22,267.87	23,869.23	22,267.87
10.	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	595.80	1,961.41	-	1,961.41
11.	Debt Equity Ratio (in times)	0.68	0.72	0.76	0.68	0.76
12.	Earnings Per Share (of Rs 10/- each)-					
	1. Basic ("not annualised") (in ₹)	*5.67	*7.08	*4.42	*22.05	*0.86
	2. Diluted ("not annualised") (in ₹)	*5.66	*7.07	*4.42	*22.01	*0.86
13.	Capital Redemption Reserve	2,160.00	1,560.00	160.00	2,160.00	160.00
14.	Debt Redemption Reserve	-	-	-	-	-
15.	Debt Service Coverage Ratio	1.68	2.20	0.97	1.94	0.82
16.	Interest Service Coverage Ratio	5.94	6.78	4.67	6.80	4.65

## Notes:

- The above results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 as prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013, read with the relevant Rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 02 February 2026
- Key numbers of Standalone Financial Results

Sr No	Particulars	Quarter Ended		Nine months ended		Year ended
		31 December 2025	30 September 2025	31 December 2024	31 December 2025	31 March 2025
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1.	Total Income	5,310.03	7,210.61	4,457.42	21,216.73	11,768.95
2.	Profit before income tax	1,675.99	2,223.45	1,273.14	6,614.13	2,998.61
3.	Profit for the period / year	1,265.34	1,675.13	1,019.19	4,985.86	381.37

4) The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statement of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2025 (including line items under Regulation 52(4) of the Listing Regulations) are available on the websites of the Stock Exchange(s) at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and also on the Company's website at [www.chalet-hotels.com](http://www.chalet-hotels.com).

For Chalet Hotels Limited

(CIN - L55101MH1986PLC038538)

Sd/-

Shwetak Singh

Managing Director & CEO

(DIN. 02976637)

PLACE : MUMBAI

DATE : 02 FEBRUARY, 2026

ATHIVA  
HOTELS & RESORTS

JOY IS ON  
the HOUSE

ATHIVA.COM

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR ISSUE TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE. PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. PUBLIC ISSUE OF EQUITY SHARES ON THE SME PLATFORM OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

## PUBLIC ANNOUNCEMENT



(Please scan this QR Code to view the Draft Prospectus)

## PANCHATV BHARAT LIMITED

Corporate Identity Number: U13999DL2024PLC427903

Our Company was incorporated as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 2013 vide Certificate of Incorporation dated March 06, 2024, issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre. Thereafter, our Company was converted from a private limited company to public limited company pursuant to special resolution passed in the Extra-Ordinary General Meeting of the company dated June 06, 2024 and consequently, the name of our Company was changed from "Panchatv Bharat Private Limited" to "Panchatv Bharat Limited" and a fresh certificate of incorporation dated August 05, 2024 was issued to our Company by the Registrar of Companies, Delhi. The Corporate Identification Number of our Company is U13999DL2024PLC427903. For further details related to Corporate Structure of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 156 of the Draft Prospectus.

Registered Office: Ground Floor, Property No. IX/3615, Sat Narayan Mandir Gali, Gandhi Nagar, East Delhi, Delhi, India, 110031;

Corporate Office: Office no. B-806 Titanium Business Park, Near Corporate Road Makarba, S A C, Ahmedabad, Gujarat, India, 380015;

Contact Person: Ms. Chanchal Khandelwal, Company Secretary and Compliance Officer | Contact No.: + 91 8920318885;

E-Mail ID: [info@panchatvlimited.com](mailto:info@panchatvlimited.com) | Website: [www.panchatvlimited.com](http://www.panchatvlimited.com)

## OUR PROMOTERS: MR. SANJAY GUPTA AND MR. SOORAJ GUPTA

PUBLIC ISSUE OF 17,56,800 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH OF PANCHATV BHARAT LIMITED ("PBL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹120.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹110.00 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹2108.16 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 91,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹120.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹110.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹109.44 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 16,65,600 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AT A PRICE OF ₹120.00 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹110.00 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹1998.72 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 30.02% AND 28.47% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

In terms of Rule 19(2)(b)(i) of the SCRR, this Issue is being made for at least 25% of the post-Issue paid-up Equity Share capital of our Company. This Issue is being made through Fixed Price Process and allocation in the Net Issue to the public will be made as per Regulation 253(3) of the SEBI ICDR Regulations, and in compliance with Chapter IX and other applicable provisions of SEBI ICDR Regulations, wherein a minimum 50% of the Net Issue is allocated for Individual Applicants who apply for minimum application size and the balance shall be offered to individual applicants other than Individual Applicants who apply for minimum application size and Other Investors including corporate bodies, institutions and Non-Institutional Applicants. However, if the aggregate demand from the Individual Investors who apply for minimum application size is less than 50%, then the balance Equity Shares in that portion will be allocated to the Individual Investors who apply for more than minimum application and vice-versa, subject to valid applications being received from them at or above the Issue Price. Additionally, if the Individual Investors who apply for minimum application size category is entitled to more than 50% on proportionate basis, the Individual Investors who apply for minimum application size shall be allocated that higher percentage. For details in this regard, specific attention is invited to "Issue Procedure" beginning on page no. 269 of the Draft Prospectus. A copy will be filed with the Registrar of Companies as required under Section 26 and 32 of the Companies Act, 2013.

This public announcement is made in compliance with the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended and applicability of corporate governance provisions under SEBI (LODR) Regulations, 2015 on SME Companies for fulfilling all additional criteria, the Draft Prospectus filed with the SME Platform of BSE Limited (BSE SME) shall be made available to the public for comments, if any, for a period of at least 21 days, from the date of such filing by hosting it on the website of the BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com), and the website of the Company at [www.panchatvlimited.com](http://www.panchatvlimited.com) and at the website of Lead Manager i.e. at [www.markcorporatedevisors.com](http://www.markcorporatedevisors.com). Our Company hereby invites the members of the public to give their comments to Stock Exchange, to Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the Lead Manager at their respective addresses mentioned below. All comments must be received by BSE SME and/or our Company and/or Lead Manager in relation to the issue on or before 5 p.m. on the 21st day from the date of filing the Draft Prospectus with BSE SME.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk, and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled "Risk Factors" on page 24 of the Draft Prospectus.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the Draft Prospectus should be made solely on the basis of the information contained in the Draft Prospectus, including the Risk Factors and other disclosures. The Equity Shares, when issued pursuant to the Prospectus, are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited.

For details of the main objects of the Company as contained in its Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page 156 of the Draft Prospectus. The liability of the members of the Company is limited. For details of the share capital and capital structure of the Company and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them, see "Capital Structure" on page 64 of the Draft Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <b>MARK CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED</b> Address: 404/1, The Summit, Sant Janabai Road (Service Lane), Off W. E. Highway, Vile Parle (East), Mumbai-400057, Maharashtra, India. Telephone: +91 22 26123207/08 E-Mail ID: <a href="mailto:smeipo@markcorporatedevisors.com">smeipo@markcorporatedevisors.com</a> Investor Grievance E-Mail ID: <a href="mailto:investorgrievance@markcorporatedevisors.com">investorgrievance@markcorporatedevisors.com</a> Contact Person: Mr. Manish Gaur Website: <a href="http://www.markcorporatedevisors.com">www.markcorporatedevisors.com</a> SEBI Registration Number: INM000012810 CIN: U67190MH2008PTC181996	 <b>MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED</b> Address: 451, Krishna Apra Business Square, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034, India Telephone: +91 11 47581432 E-Mail ID: <a href="mailto:investor.ipo@maashitla.com">investor.ipo@maashitla.com</a> Investor grievance e-mail: <a href="mailto:investor.ipo@maashitla.com">investor.ipo@maashitla.com</a> Contact Person: Mr. Mukul Agrawal Website: <a href="http://www.maashitla.com">www.maashitla.com</a> SEBI Registration No.: INR000004370 CIN: U67100DL2010PTC208725	 <b>Ms. Chanchal Khandelwal</b> Address: Ground Floor, Property No. IX/3615, Sat Narayan Mandir Gali, Gandhi Nagar, East Delhi, Delhi, India, 110031. Contact No.: +91 8920318885 Email: <a href="mailto:cs@panchatvlimited.com">cs@panchatvlimited.com</a> Website: <a href="http://www.panchatvlimited.com">www.panchatvlimited.com</a> Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, Lead Manager or Registrar to the Issue, in case of any pre issue or post issue related problems, such as non-receipt of letter of allotment, non-credit of allotted Equity shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Prospectus.

For Panchatv Bharat Limited  
On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Chanchal Khandelwal  
Company Secretary and Compliance Officer

Panchatv Bharat Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake a public issue of its Equity Shares and has filed the Draft Prospectus dated January 31, 2026 with BSE SME. The Draft Prospectus is available on the website of BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of the LM, i.e., Mark Corporate Advisors Private Limited at [www.markcorporatedevisors.com](http://www.markcorporatedevisors.com) and the website of our Company at [www.panchatvlimited.com](http://www.panchatvlimited.com). Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see the section titled "Risk Factors" beginning on page 24 of the Draft Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Prospectus filed with BSE SME for making any investment decision.

The Equity Shares issued in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 ("U.S. Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being issued and sold only outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S and the applicable laws of the jurisdictions where those issues and sales are made.

There will be no public issuing of the Equity Shares in the United States.

AdBaz





बैंक ऑफ महाराष्ट्र

Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

देहरादून आंचलिक कार्यालय,

1072, आशीर्वाद टॉवर, दूसरी मंजिल, बल्लुपुर रोड,

सुंदर विहार, चक्राता रोड, देहरादून-248001

प्रधान कार्यालय : 1501, शिवाजीनगर, पुणे-5

परिशिष्ट- IV क [नियम-8 (6) का परत्तुक देखें ]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परत्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अवल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी प्रभारित है, का कब्जा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को 'जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर निम्नवर्णित ऋणियों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र (प्रतिभूत लेनदार) की निम्नवर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु बैठा जाएगा।

क्र० सं०	ऋणी/गारन्टर के नाम	देय राशि	प्राप्त भार के साथ अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि	कब्जा का प्रकार
<b>शाखा रुड़की</b>					
1.	<b>ऋणी<span> </span>: श्री फाजिल पुत्र श्री खलील, पता: ग्राम सफरपुर, रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड–247667, गारटर: श्री कामिल पुत्र श्री खलील अहमद, पता: मकान नंबर 367, ग्राम सफरपुर, रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड–247667</b>	<b>₹0 24,43,939.00</b> दिनांक 03-12-2022 से खातों में 2% की दर से दंडात्मक व्याज और अन्य शुल्क/खर्च के साथ	बंधक सम्पत्ति जिसका खसरा संख्या 501 का भाग जो ग्राम इम्राहिमपुर देह, परगना भगवानपुर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड– 247668 में स्थित है। <b>सीमाएँ– उत्तर–</b> सालियार का प्लॉट, <b>पूर्व–</b> नौशदा का खेत, <b>पश्चिम – 16 फिट चौड़ी सड़क, दक्षिण–</b> अन्य का प्लॉट।	<b>₹0 10,73,500.00</b>  <b>₹0 1,07,300.00</b>  <b>₹0 10,00,00.</b>	<b>भौतिक</b>
2.	<b>ऋणी<span> </span>: 1. श्रीमान विनोद कपूर पुत्र जगदीश कुमार, 2. श्रीमती जानवी कपूर, दोनों का पता – सुभाष नगर, सौतापुर माजरा, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार,उत्तराखंड–249407</b>	<b>₹0 40,94,871.00</b> + व्याज, व्यय और अन्य शुल्क दिनांक 28.11.2023 से	बंधक सम्पत्ति के भाग का खसरा नं० 1736, जो सुभाष नगर, ज्वालापुर, तहसील एवं जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड में स्थित है। <b>सीमाएँ–उत्तर–</b> 20 फुट चौड़ी सड़क, <b>पूर्व–</b> अन्य की संपत्ति, <b>पश्चिम–</b> अजय कुमार का प्लॉट, <b>दक्षिण–</b> अन्य की संपत्ति।	<b>₹0 51,97,000.00</b>  <b>₹0 5,19,700.00</b>  <b>₹0 10,00,00.</b>	<b>भौतिक</b>

<b>शाखा हरिद्वार</b>					
3.	<b>ऋणी<span> </span>: 1. नैसरर्स मालूम रिटेल, प्रोपराइटर: श्रीमती गरिमा शर्मा, पता: 1. 947 / 791एन, चाकलात, ज्वालापुर, हरिद्वार–249407, पता: 2 फिरेहादियान, ज्वालापुर, हरिद्वार–249407। गारटरः 2. श्री आशुतोष शर्मा, पता<span> </span>: फिरेहादियान, ज्वालापुर, हरिद्वार – 249407</b>	<b>₹0 10,11,249.00</b> + व्याज एवं उस खाता संख्या में संचिदात्मक दर दिनांक 25-11-2024 से 2% की दर से दंडात्मक व्याज और खातों में अन्य शुल्क/ खर्चों भी देय होंगे।	बंधक आवासिय प्लॉट जिसका खाता संख्या 947 /791 एन, खसरा संख्या 3309 में समाहित 2590 वर्ग फीट यानी 240.70 वर्ग मीटर, मोहल्ला चाकलात, ज्वालापुर, परगना ज्वालापुर, तहसील और जिला हरिद्वार में स्थित है। जो श्री आशुतोष शर्मा पुत्र श्रीराय श्री सत्यनारायण शर्मा के नाम पर विलेख के अनुसार पंजीकृत है। जो वही संख्या 1, जिनद 5,400 पृष्ठ 163 से 190 पर क्रम संख्या 2875 पर दिनांक 16.06.2020 को सब राजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम, हरिद्वार के समक्ष पंजीकृत है। <b>सीमाएँ–पूर्व–</b> गोपाल प्रधान और राशिकांत वशिष्ठ का मकान, <b>पश्चिम–</b> सीतारी शर्मा और चंद्रशेखर का मकान, <b>उत्तर–</b> गोपाल प्रधान और श्री वर्मा आदि का मकान, <b>दक्षिण–</b> 8 फीट चौड़ा रास्ता।	<b>₹0 45,78,000.00</b>  <b>₹0 4,57,800.00</b>  <b>₹0 10,00,00.</b>	<b>संकेतिक</b>

**ई-नीलामी  दिनांक 17.02.2026, समय दोपहर 1:00 से 05:00 बजे तक 10 मिनट के असंमिित विस्तार के साथ, यदि बोली 5 मिनट  के भीतर लगाई जाती है।**

संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय: दिनांक **05.02.2026** से **13.02.2026** को सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

बोली आवेदन /केवाईसी दस्तावेज /ईएमपी आदि जमा करने की अंतिम तिथि और समय : **17.02.2026**

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट "https://www.bankofmaharashtra.bank.in/properties\_for\_sale" देखें।

नीलामी में सहायता हेतु श्री आशुतोष त्रिपाठी प्राधिकृत अधिकारी, देहरादून क्षेत्र, मोबाइल: **7588293544** से संपर्क करें।

पंजीकरण, लॉगिंग, बोली, बोली नियमों के लिए <https://baanknet.com> पर जाएं

परिवर्तित सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत आगमी विक्रय हेतु **15/30 दिवसीय वैधानिक विक्रय सूचना** उधारकर्ताओं एवं जमानतदारों को एतद द्वारा नीलामी की दिनांक के पूर्व उपरोक्त राशि का भुगतान बैंक को करने हेतु हेतु सूचित किया जाता है अन्यथा उपरोक्त वर्णित संपत्तियों की ई – नीलामी कर दिया जावेगा तथा शेष राशि ब्याज एवं अन्य व्ययों अतिरिक्त उनसे वसूल की जायगी।

दिनांक: 02.02.2026	प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र
--------------------	---------------------------------------



Chola

Enter a better life

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : 'चोला क्रैस्ट', सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032, भारत शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, कोरोल बाग, नई दिल्ली–110005 कॉन्स्ट्रक्ट नंबर : श्री श्रीनिवास वी, मोबाइल नंबर 9643344410

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 9(4) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना।


एतद्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार /सह-कर्जदार /बंधकदाता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक निम्नवर्णित अचल सम्पत्तियां, जिनका सांकेतिक /भौतिक कब्जा चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड इनमें आगे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड कही जाएगी, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। प्रतिभूत आस्तियां 'जैसा है जहां है', 'जो है जैसा है' तथा 'जो भी है वहां है' आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएंगी।

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि हम ई-नीलामी का संचालन वेबसाइट <https://chola-lap.procure247.com/> एवं [www.cholamandalam.com/news/auction-notice](http://www.cholamandalam.com/news/auction-notice) के माध्यम से करेंगे।

क्र. सं.	खाता संख्या तथा कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधकदाताओं का नाम	धारा 19(2) के तहत मांग सूचना की तिथि एवं राशि	सम्पत्ति / सम्पत्तियों का वर्णन	सुरक्षित मूल्य, धरोहर राशि जमा एवं बोली वृद्धि राशि (रु. में)	ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमपी जमा की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1.	<b>ऋण खाता संख्या HE01XBS00000035368</b> <b>1 कमलेश शोकीन (आवेदक),</b> प्लेट 4602, लॉर्ड सोसाइटी सीजीएनएस, सेक्टर – 19 बी, द्वारका, दिल्ली –110075 <b>2 कमलेश शोकीन (आवेदक),</b> मकान नंबर 943, वीपीओ डिघाऊं कलां, नई दिल्ली –110043 <b>3 जगबीर सिंह (सह-आवेदक),</b> प्लेट 4602, लॉर्ड सोसाइटी सीजीएनएस, सेक्टर-19 बी, द्वारका, दिल्ली-110075 <b>4 अनौता शोकीन (सह-आवेदक),</b> प्लेट 4602, लॉर्ड सोसाइटी सीजीएनएस, सेक्टर-19 बी, द्वारका, दिल्ली-110075 <b>5 अनौता शोकीन (सह-आवेदक),</b> मकान नंबर 943, वीपीओ डिघाऊं कलां, नई दिल्ली –110043 <b>6 संदीप शोकीन (सह-आवेदक),</b> प्लेट 4602, लॉर्ड सोसाइटी सीजीएनएस, सेक्टर-19 बी, द्वारका, दिल्ली-110075 <b>7 संदीप शोकीन (सह-आवेदक),</b> मकान नंबर 943, वीपीओ डिघाऊं कलां, नई दिल्ली –110043 <b>8 शोकीन फिलिंग स्टेशन (इसके स्वामी संदीप शोकीन के माध्यम से) (सह-आवेदक),</b> प्लेट 4602, लॉर्ड सोसाइटी सीजीएनएस, सेक्टर-19 बी, द्वारका, दिल्ली-110075 <b>9 सूर्या गैस एजेन्सी (इसके स्वामी कमलेश शोकीन के माध्यम से) (सह-आवेदक),</b> प्लेट 4602, लॉर्ड सोसाइटी सीजीएनएस, सेक्टर-19 बी, द्वारका, दिल्ली-110075	<b>10-07-2025</b>  <b>₹ 6,37,10,216 /–</b>  <b>कब्जा का प्रकार</b>  <b>सांकेतिक</b>	प्लॉट क्षेत्रफल परिमाण 770 वर्ग गज, जिसमें लंबाई और चौड़ाई का आकार (आकार 117.11 गुणा 59.0) और इसे यहां संलग्न साइट प्लान में दिखाया गया है, खसरा नंबर 11 / 5 / 1, 5 / 2 के कुल 2 बीघा में 1 / 2 हिस्सा, गांव नजफगढ़, नई दिल्ली-43 की राजस्व संपदा में स्थित, निम्नानुसार परिबद्ध – पूर्व (सामने)– मुख्य फिरनी रोड, पश्चिम (पीछे) – अमित वशिष्ठ की संपत्ति और र वीधा का शेष भाग और नजफगढ़ रोड, उत्तर – 2 बीघा का शेष भाग (खसरा संख्या 11 / 5 / 1, 5 / 2), दक्षिण-वक्फ बोर्ड की भूमि	<b>₹ 8,28,00,000 /–</b> <b>₹ 82,80,000 /–</b> <b>₹ 1,00,000 /–</b>	<b>25–02–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक</b>  <b>26–02–2026 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक</b>  <b>भेट के निर्धारित समयानुसार</b>

<b>ज्ञात ऋणभार</b>	
अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, कम्पनी को बिक्री की जा रही सम्पत्ति पर कम्पनी के सिवाय तथा उक्त सम्पत्ति पर सृजित निम्न किराएदारी के अन्य किसी ऋणभार की जानकारी नहीं है <span> </span> :-	
सम्पत्ति खसरा नंबर 11/5/1, 5/2, फर्नीचर मार्केट के सामने, फिरनी रोड, नजफगढ़, दिल्ली, क्षेत्रफल परिमाण भू तल 2670 वर्ग फीट और बेसमेंट में 2670 वर्ग फीट का पट्टा, पंजीकृत पट्टा अनुबंध दिनांकित 29–09–2012 के अनुसार पंजीकरण संख्या 11181 बही नंबर 1 (पंजीकरण वर्ष 2012–2013) मैसर्स कम्प्यूटेड ऑटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कमल के कुमार के माध्यम से (पट्टा अवधि 9 वर्ष तक और 9 वर्ष की अन्य अवधि तक या पार्टियों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत किसी अन्य अवधि के लिए नवीनीकृत)।	
द्वितीय तल पर फिटनेस जिम पट्टा पर है (पट्टा अनुबंध का विवरण उपलब्ध नहीं है)।	

<b>लॉजिस्ट वाद</b>	
जहां तक मुकदमेबाजी का संबंध है, प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार, जिस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए ऑफर किया जा रहा है, उसके संबंध में निम्नवर्णित वाद लम्बित है: "सीएस एससीजे 1276 /25 – सीनियर अधिकारी सचिव जज कम आरसी, साउथ-वेस्ट द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली, जस्टिस टाइटल है श्री जगबीर सिंह बनार्षी श्री संदीप शोकीन और अन्य	
1. आईओएन-नोटिसेज। विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संभावित बोलीदाता सम्पर्क करें (मुहम्मद रहीस – 81240 00030), Ms.procure247 (सम्पर्क व्यक्ति <span> </span> : वासु पटेल – 9510974587)	
2 ई-नीलामी में भाग लेने के लिए नियम और शर्तों के बारे में अतिरिक्त विवरण के लिए कृपया <a href="https://chola-lap.procure247.com/">https://chola-lap.procure247.com/</a> एवं <a href="https://cholamandalam.com/news/auction-notice">https://cholamandalam.com/news/auction-notice</a> देखें।	
<b>यह सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के तहत बिक्री के संबंध में 15 दिन का कानूनी नोटिस भी है</b>	
स्थान <span> </span> : दिल्ली /एनसीआर	दिनांक <span> </span> : 02–02–2026
हस्ता./–प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैस कम्पनी लिमिटेड	

<div> <div>  <div> <div>बैंक ऑफ बड़ौदा</div> <div>Bank of Baroda</div> </div> </div> <div> <div>क्षेत्रीय दबावग्रस्त अस्तित्व वसूली शाखा</div> <div>राजेन्द्र भवन चतुर्थ तल राजेन्द्र प्लेनआई दिल्ली 110055,</div> <div>ईमेल: <a href="mailto:sardii@bankofbaroda.com">sardii@bankofbaroda.com</a></div> </div> </div>					
<div> <div>अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,</div> <div>परिशिष्ट-IVA [नियम 6(2) &amp; 8(6) देखें]</div> </div>					
<div> <div>प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) &amp; 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन आम लोगों को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अवल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को 'जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है' के आधार पर नीचे निम्नवर्णित कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को प्रत्याभूत – दाता बैंक ऑफ बड़ौदा से – प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रूपर की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे वर्णित दिनांक को बैठा जाएगा। कर्जदार(रों), बंधककर्ता(ओं) और गारंटर(रों) /प्रतिभूति आस्तियां / बकाया /आरक्षित मूल्य /ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमपी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है</div> </div>					
क्र. सं.	कर्जदार / गारंटर / बंधककर्ताओं का नाम एवं पता	ज्ञात भार के साथ अचल संपत्ति का विवरण, यदि कोई हो (श्रीमती सीमा अरोड़ा द्वारा बंधक)	कुल बकाया	ई-नीलामी की तिथि / समय प्रांरभ समय से अंतिम प्रांरभ तक	1. आरक्षित मूल्य (ईएमपी) रु. 2. ₹.2,58,200/- 3. न्युनतम बोली वृद्धि राशि रु.
1	मैसर्स सीडी ट्रेडर्स प्रोपराइटर। शिवेंद्र कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल जॉन नंबर 679, फर्स्ट फ्लोर, आल्ल लाजपत राय मार्केट, नई दिल्ली 110006 और- जितेंद्र कुमार पुत्र श्री मनोहर लाल A–21, टेंगोर गार्डन एक्सटेंशन, टेंगोर गार्डन, नई दिल्ली 110027 और- गारटर श्रीमती सीमा अरोड़ा पत्नी श्री जितेंद्र कुमार, A–21, टेंगोर गार्डन एक्सटेंशन, टेंगोर गार्डन, नई दिल्ली 110027	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जिसमें संपत्ति संख्या 11, ब्लॉक संख्या FE बेसमेंट फ्लोर, शिवाजी एक्सेड, सेक्टर F नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली-110027 शामिल है, श्रीमती सीमा अरोड़ा के नाम पर। सीमा: उत्तर में: सर्विस लेन दक्षिण में: सड़क पूर्व में: प्लॉट संख्या FE 10 पश्चिम में: प्लॉट संख्या FE 12	₹. 40,50,241.29 प्लस ब्याज और अन्य शुल्क प्लस भविष्य में न वसूल जाने वाले ब्याज और अन्य/कानूनी खर्च	20.02.2026 दोपहर 02:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक	1. ₹.25,92,000/- 2. ₹.2,58,200/- 3. ₹.10,000/-
<div> <div>बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट अर्थात <a href="https://www.bankofbaroda.in/e-auction">https://www.bankofbaroda.in/e-auction</a> और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल <a href="https://baanknet.com">https://baanknet.com</a> देखें।</div> <div>इसके अलावा, संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर– 8887880806 पर संपर्क कर सकते हैं।</div> </div>					
दिनांक <span> </span> : 02.02.2026, स्थान <span> </span> : नई दिल्ली			प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा		



शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड

CIN: L27102UP1998PLC206404

पंजीकृत कार्यालय: सी-504, एटीएस ब्लूक्रेट, सेक्टर-132, नोएडा, उत्तर प्रदेश, 201305

टेलीफोन: +91 120 4162100; ई-मेल: [info@sharikaindia.com](mailto:info@sharikaindia.com); वेबसाइट: [www.sharikaindia.com](http://www.sharikaindia.com)

ड्राफ़्ट मतपत्र की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और 110 के प्राधान्यों और अधिनियम के अन्य लागू प्राधान्यों, तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचकबद्धता कायदाएँ और प्रकटकरण अधिनियम) विनियम, 2015 के विनियम 44, और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एनसीए") द्वारा जारी सामान्य परिचय सं. 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल 2020, सं. 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल 2020, सं. 22/2020, दिनांक 15 जून 2020, सं. 33/2020,दिनांक 28 सितंबर 2020, सं. 39/2020, दिनांक 31 दिसंबर 2020), सं. 10/2021,दिनांक 23 जून 2021, सं. 20/2021, दिनांक 08 दिसंबर 2021, सं. 03/2022 , दिनांक 05 मई 2022, सं. 09/2023, दिनांक 25 सितंबर 2023, सं. 09/2024, दिनांक 19 सितंबर 2024 और सं. 03/2025, दिनांक 22 सितंबर 2025 (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से " एनसीए परिचय" कहा जाएगा) के साथ पठित प्राधान्यों के अनुसार में, और सेवा मास्टर परिचयSEBI/HO/CFD/POD2/CIR/P/2023/120, दिनांक 11 जुलाई 2023, सेवा परिचय सं. SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167,दिनांक 07 अक्टूबर 2023, सेवा परिचय सं. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133, दिनांक 3 अक्टूबर 2024, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा सामान्य बैठक को पर जारी सचिवीय मानक ("एसएस-2") और किसी भी अन्य लागू कानून, नियमों और विनियमों (वर्तमान में लागू किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) एवं अन्य लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, नीचे संलग्न संकल्प को हिमेट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से पोस्टल वॉलेट द्वारा कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया है।

क्रम सं. संकल्प का विवरण
1 श्री तेज विमल वाल्मी (DIN: 02413663) को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए अनुमोदन।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, पोस्टल वॉलेट नोटिस की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां सोमवार, 02 फरवरी, 2026 को उन सभी शेयरधारकों को भेज दी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026, यानी कट-ऑफ तिथि तक पंजीकृत हैं। पोस्टल वॉलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट [www.sharikaindia.com](http://www.sharikaindia.com), स्टिक एक्सेसिबल यानी वीएसई लिमिटेड की वेबसाइट [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और सीडीएसएल की वेबसाइट [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर भी उपलब्ध होगा। एनसीए परिचयों के प्राधान्यों के अनुसार, शेयरधारक केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही मतदान कर सकते हैं। वे शेयरधारक जिनके नाम शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026 तक सदस्यों के रजिस्टर/लाभकारी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, उन्हें ही ई-वोटिंग के उद्देश्य के लिए पत्र माना जाएगा। कंपनी ने अपने सभी सदस्यों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। ई-वोटिंग की सुविधा गुरुवार, 05 फरवरी, 2026 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और शुक्रवार, 06 मार्च, 2026 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। कंपनी के वे सदस्य जिनके पास वॉलेट और भौतिक रूप में इन्कॉर्पोरेट शेयर हैं और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे लिंक: [admin@skylinetrade.com](mailto:admin@skylinetrade.com) पर क्लिक करके अस्थायी रूप से अपना ईमेल पता क्राइडलम फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत करा सकते हैं और वहां निर्दिष्ट पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे डीपीआईडी, क्लास्ट आईडी/पोलियो नंबर/पीन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करें। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य स्वाइलान्ड को [admin@skylinetrade.com](mailto:admin@skylinetrade.com) पर ईमेल भेज सकते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि ईमेल पते के स्थायी पंजीकरण के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग के संबंध में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना ईमेल पंजीकृत कराएं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे फॉलियो नं., नाम, मोबाइल नं., ईमेल आईडी के साथ शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) को स्कैन की गई प्रति और पेन काई की रव-लायफ़िट प्रति स्वाइलान्ड को [admin@skylinetrade.com](mailto:admin@skylinetrade.com) पर जमा करें। ई-वोटिंग की प्रक्रिया के निर्दिष्ट नियमों भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा मतदान करने का तरीका शामिल है, पोस्टल वॉलेट वॉलेट में प्रदान किए गए हैं।

ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल वॉलेट का परिणाम कंपनी के अध्यक्ष द्वारा घोषणा, 09 मार्च, 2026 को या उससे पहले घोषित किया जाएगा और इसे स्टिक एक्सेसिबल और डिपॉजिटरी को सूचित करने के साथ-साथ कंपनी की वेबसाइट [www.sharikaindia.com](http://www.sharikaindia.com) पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, आप 'हेल्प' सेक्शन के अंतर्गत [www.evotingindia.com](http://www.evotingindia.com) पर उपलब्ध 'अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (FAQs) और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या [helpdesk.evoting@cdslindia.com](mailto:helpdesk.evoting@cdslindia.com) पर ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सीडीएसएल से टोल फ्री नं. 1800 22 55 33 पर संपर्क कर सकते हैं।

स्थान: नोएडा, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 02 फरवरी, 2026

शारिका एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए	हस्ता./–
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	पुष्पा यादव

ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष

4 थी मॉडल, जीवन तारा भवन, संवेद मार्ग, नई दिल्ली-110001

[बैंक और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ पठित ऋण संपत्ति अधिकरण

(प्रक्रिया) नियम, 1993 के नियम 12 और 13 के अंतर्गत सूचना

मागने में

ओर सं. 24/2023

दिनांक: 21.01.2026

आईसीआईआई बैंक लिमिटेड

...आवेदक

बनाम

श्री मुरारी कुमार चौधरी और अन्य

...प्रतिवादी

सेवा में,

प्रतिवादी:

डी1. श्री मुरारी कुमार चौधरी,पुत्र सिकंदर प्रसाद, 223-ए चुरिया मोहल्ला, मदनपुर खादर, दिल्ली-76

अन्य पता: प्लॉट नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर, आरसीएस कार, सेक्टर 144, नोएडा, पृथी 201301

अन्य पता: प्लेट नं. 1401, 14वीं मंजिल, टावर ए2, जीएचपी 0001, युनिवर्सल गार्डन्स, सेक्टर 117, नोएडा, यूथी-201301

डी2. श्री विपुलारी कुमार, पुत्र सिकंदर प्रसाद, 223-ए, चुरिया मोहल्ला, मदनपुर खादर, दिल्ली-76